

DAILY SAMVIDA CAPSULE

One liners –

- पंजाब नेशनल बैंक को करीब 12700 करोड़ रुपये के घोटालेसे सबक लेते हुए रिजर्व बैंक ने कारोबारी कर्ज के लिए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी एलओयू और लेटर ऑफ कम्फर्ट यानी एलओसीज को तत्काल प्रभाव से बंद करने का ऐलान किया है।
- भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने मॉरीशस की अपनी यात्रा के तीसरे दिन 13 मार्च, 2018 को विश्व हिंदी सचिवालय भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने विश्व हिंदी सचिवालय का लोगो भी लॉन्च किया और भारतीय सहायता के साथ निर्मित एक बड़े ईएनटी अस्पताल का उद्घाटन भी किया। राष्ट्रपति ने कहा कि अगस्त 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरीशस में होने जा रहा है।
- नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी को कार्यालय में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। राष्ट्रपति पद के चुनाव में भारी बहुमत के साथ राष्ट्रपति भंडारी ने नेपाली कांग्रेस नेता कुमारी लक्ष्मी राय को हराया। वह 2015 में नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई थी।
- स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका पिछले पांच सालों में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक रहा, जबकि भारत ने सबसे अधिक हथियार आयात किए थे।
- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सीआईए निदेशक के पद के लिए जीना हास्पेल को चुना है। वह माइक पोम्पे की जगह लेगी। सुश्री हास्पेल, एजेंसी की मौजूदा उप निदेशक, इसकी पहली महिला प्रमुख बनेंगी।
- टाटा मोटर्स और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) ने हाइड्रोजन ईंधन सेल बस के लिए देश का पहला प्रदर्शन परीक्षण शुरू किया है। भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार डॉ आर चिदंबरम और इंडियन ऑयल के अध्यक्ष और बोर्ड के सदस्यों की उपस्थिति में प्रदर्शन का आयोजन किया गया।
- व्यवसायी से राजनेता बने सेबास्टियन पिनेरा को चिली के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई थी, जो चार साल की अनुपस्थिति के बाद दूसरे कार्यकाल का पद संभालेंगे।
- कोलकाता में 'शहरी क्षेत्रों के लिए त्वरित जन परिवहन प्रणाली (एमआरटीएस) – अवसर एवं चुनौतियों' पर आयोजित प्रथम क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया।
- वर्ष 2017 के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 27वां जी डी बिड़ला पुरस्कार डॉ राजन शंकरनारायणन को दिया गया है।
- केन्द्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली में पुलिस प्रमुखों के अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन (आईएसीपी) के दो दिवसीय एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का विषय है, '2020 में पुलिस चुनौतियां-किस तरह साइबर स्पेस अपराध तथा आतंकवाद के प्रति हमारे दृष्टिकोण को आकार दे रहा है, हम इसके अंदर कैसे प्रदर्शन करेंगे और कैसे इसका लाभ उठाएंगे।'

Computer -

- किस फक्शन की से फाइल या फोल्डर खोजा जाता है - एफ3
- वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों से किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है - डाक्यूमेंट फाइल
- एक्सेल में एफ11 कुंजी से क्या होता है - चार्ट मीनू खुलता है
- कम्प्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है - कंट्रोल यूनिट
- डिजीटल कम्प्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत है - गणना व तंक
- इलेक्ट्रॉनिक कम्प्यूटर का आविष्कार किसने किया - मोचले व एकर्ट
- किस प्रकार की मैमरी प्रोसेसर के सबसे करीब से कनेक्टेड है - मेन मैमरी
- इंटेल द्वारा किस कम्प्यूटर पुर्जे का निर्माण किया जाता है - माइक्रोप्रोसेसर
- ब्लुटूथ किस टेक्नोलॉजी पर कार्य करती है - रेडियो फ्रिक्वेंसी
- प्रथम गणना यंत्र है - अबैकस
- सब-टाइटलिंग प्रणाली भारत में किस सॉफ्टवेयर कंपनी ने दी - सी-डैक
- मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढी के कम्प्यूटर से शुरू हुआ था - तृतीय पीढी
- सैटेलाइट कनेक्शन के लिए एंटीना को कहते हैं - डिंस
- विश्व कम्प्यूटर साक्षरता दिवस कब होता है - 2 दिसम्बर

RAILWAY

VYAPAM

(LABOUR INSPECTOR)

NEW BATCHES START



**OUR
BRANCHES**

**INDORE -
PALASIYA**
Cont.- 099779-44914
BHANWARKUA
Cont.- 083497-59425

**BHOPAL -
M.P.
NAGAR**
Cont.- 078693-74842

HARDA
Opp. GP Mall
Bus Stand Road
Cont.- 099263-93771

HOSHANGABAD -
Meenakshi Chowk
Above ICICI Bank
Cont.- 078693-74873

KHANDWA -
Grover Plaza
Anand Nagar
Cont.- 099777-02933

GUNA -
Kanha Heights
Above IO Bank
Cont.- 088892-89335

BILASPUR -
Amar Complex
Near Gandhi Chowk
Cont.- 093003-80700

REWA -
Ramagovind Palace
Sirmour Chowk
Cont.- 090396-52859

PINNACLE CAREER INSTITUTE For Further Details Please Call Us On- 9039055453, 9977716716

Facebook: Pinnaclecareerinstitute

Website: www.pinnacle.edu.in H.O.: M.G.Road The Heritage 1st Floor, Indore